

Date: 17th May, 2024

The Manager **BSE Limited**Corporate Relationship Department, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai 400 001

The Manager
National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
Exchange Plaza

5th Floor, Plot no C/1, G Block Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Code: 543990 Symbol: SIGNATURE

Subject: Newspaper publication of Audited Financial Results (both Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2024.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the copies of the newspaper advertisements of the extract of the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2024 published in English and Hindi newspapers on 17th May, 2024 in Financial Express and Jansatta respectively.

Kindly take the above information on your record.

Thanking You,

For SIGNATUREGLOBAL (INDIA) LIMITED

(M R BOTHRA) COMPANY SECRETARY

Encl: A/a

FINANCIAL EXPRESS



# SIGNATUREGLOBAL (INDIA) LIMITED

**CIN:** L70100DL2000PLC104787

### **EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024**

(Rs. in million unless otherwise stated)

		[Unaudited] 2023 [Unaudited] [Refer note 4] (Unaudited) [Refer note 5] (A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Year e	ar ended		
S. No.	Particulars	[Unaudited]	2023	[Unaudited]	31 March 2024 (Audited)	31 March 2023 (Audited)
1	Total income from operations	7,227.38	3,017.50	7,098.69	13,245.55	15,858.77
2	Net Profit / (Loss) for the period/ year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	345.84	20.49	219.23	44.69	(567.51)
3	Net Profit / (Loss) for the period/ year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	345.84	20.49	219.23	44.69	(567.51)
4	Net Profit / (Loss) for the period/ year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	412.54	21.79	76.47	163.24	(637.15)
5	Total Comprehensive Income for the period/ year [Comprising Profit / (Loss) for the period/year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	411.52	21.85	77.82	161.56	(631.45)
6	Equity share capital (face value of Re. 1 each)	140.51	140.51	124.85	140.51	124.85
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				6,126.03	350.54
	Earnings/(loss) per equity share (face value of Re. 1 each per share) (quarterly figures are not annualised)					
8	Basic (Rs. per share)	2.93	0.15	0.61	1.22	(5.44)
	Diluted (Rs. per share)	2.93	0.15	0.61	1.22	(5.44)

- the quarter and year ended 31 March 2024 ("Consolidated Financial Results") of Signatureglobal (India) Limited [Formerly known as Signatureglobal (India) Private Limited] (the "Holding Company" or the "Company") and its subsidiaries (the Company along with subsidiaries together referred to as "the Group") has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 15 May 2024 and have been audited by the statutory auditors of the Company.
- 2 The Consolidated Financial Results, for the quarter and year ended 31 March 2024 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards, prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- 3 During the year ended 31 March 2024, the Company has completed its Initial Public Offer ('IPO') of 18,961,038 Equity shares having face value of Rs. 1 each, at an issue price of Rs. 385 per equity share (including share premium of Rs. 384 per share), comprising offer for sale of 3,298,701 shares by selling shareholder aggregating to Rs. 1,270.00 million and a fresh issue of 15,662,337 shares aggregating to Rs. 6,030.00 million. The equity shares of the Company were listed on BSE Limited ('BSE') and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') on 27 September 2023.
- 4 The figures for the quarter ended 31 March 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended 31 March 2024 and the figures for the nine months period ended 31 December 2023, which were subjected to limited review by the statutory auditors.
- 5 The figures for the quarter ended 31 March 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended 31 March 2023 and the unaudited year to date figures upto the period ended 31 December 2022, which were neither subjected to review nor audit. However, the management has exercised necessary care and diligence to ensure that the consolidated financial results for such period are fairly stated.
- 6 During the current year, the Group has executed a Share Purchase Agreement with the existing shareholders of Gurugram Commercity Private Limited ('GCPL'), the entity that owns land parcel admeasuring 25.14 acres, situated at Village Fazilpur Jharsa, Sector 71, Gurugram, Haryana. During the quarter ended 31 December 2023, the Group had acquired a 19% stake and further, had advanced an interest bearing short- term loan to GCPL. During the current quarter, the Group has completed the acquisition and consequently, as at 31 March 2024, GCPL has become a 100% subsidiary company, for consideration of Rs 846.72 million while interest bearing short- term loan to GCPL amounts to Rs. 2,657.55 million. The said acquisition meets the criterion of asset acquisition in accordance with Ind AS 103- 'Business Combinations'.

**Key Standalone financial information is given below:** 

**Place:** Gurugram

**Date:** 15 May 2024

Place: Thane

Date: 15 May 2024

(Rs. in million unless otherwise stated)

c			Quarter ended	Year ended		
S. No.	Particulars Particulars	31 March 2024 [Unaudited]	31 December 2023 (Unaudited)	31 March 2023 [Unaudited]	31 March 2024 (Audited)	31 March 2023 (Audited)
1	Total income from operations	2,942.06	2,523.42	4,962.21	9,614.07	9,300.96
2	Net Profit / (Loss) for the period/ year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(16.46)	215.08	191.59	117.62	(1,017.63)
3	Net Profit / (Loss) for the period/ year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(16.46)	215.08	191.59	117.62	(1,017.63)
4	Net Profit / (Loss) for the period/ year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	88.14	214.90	2.71	221.58	(1,125.25)
5	Total Comprehensive Income for the period/ year [Comprising Profit / (Loss) for the period/ year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	87.49	214.46	3.06	219.38	(1,121.05)
6	Equity share capital (face value of Re. 1 each)	140.51	140.51	124.85	140.51	124.85
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				8,532.18	2,697.50
	Earnings/(loss) per equity share (face value of Re. 1 each per share) (quarterly figures are not annualised)					
8	Basic (Rs. per share)	0.63	1.53	0.02	1.67	(9.58)
	Diluted (Rs. per share)	0.63	1.53	0.02	1.67	(9.58)

The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarter and year ended Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com/ www.nseindia.com and Company's website at www.signatureglobal.in.

> On behalf of the Board of Directors For Signatureglobal (India) Limited

Ravi Aggarwal

Managing Director

Registered office: 13th Floor, Dr. Gopal das Bhawan, 28, Barahkhamba Road, New Delhi-110001, Website: www.signatureglobal.in, Tel: 011 49281700, Email: cs@signatureglobal.in



Head Office, Information Technology Department, Bank of India Star House-3, PNB-BOI Tower C-29, G Block, IT Department, 10th Floor, BKC, Bandra East, Mumbai 400051. E-mail: Headoffice.it@bankofindia.co.in

RFP for Procurement, Integration and Annual Maintenance Support of Existing and New Network Devices along with Facility Management at Bank's Data Centre (DC), Disaster Recovery Site (DR),Colocation DC Site and Colocation DR Site RFP Ref No. BOI/HO/IT/Core-Network/RFP- 01/2024 Dated 15/05/2024

The captioned RFP is available on Bank's corporate website www.bankofindla.co.in under "Tender" section since 15/05/2024. Subsequent changes if any, will henceforth be uploaded only on the website. The last date of submission: 06/06/2024



TATA POWER Corporate Contracts Department)

The Tata Power Company Limited, Smart Center of Procurement Excellence, 2nd Floor, Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Sahar Airport Road Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India (Board Line: 022-67173917) CIN: L28920MH1919PLC000567

#### NOTICE INVITING TENDER (NIT) The Tata Power Company Limited invites tender from eligible vendors for the

following tender package (Two-part Bidding) in Mumbai. A) General civil works for 110 kV GIS building at Tata Power Parel Receiving Station,

Mumbai (Package Reference CC25SVP006) B) Civil works for development of dismantled switchyard area at Tata Power Vikhroli Receiving Station, Mumbai. (Package Reference CC25SVP007)

Interested and eligible bidders for above Tender Package to submit Tender Fee and Authorization Letter on or before 1500 hrs. of 23rd May 2024, Thursday. For downloading the Tender documents (Including the procedure for participation in the tender), please visit the Tender section on the website https://www.tatapower.com.

Future corrigendum (if any), to the above NIT/tender will be informed on the Tender section on website https://www.tatapower.com only.

AEGIS

**AEGIS LOGISTICS LIMITED** 

Regd. Office: 502 Skylon, G.I.D.C., Char Rasta, Vapi 396 195, Dist. Valsad, Gujarat Corp. Office: 1202, Tower B, Peninsula Business Park, G. K. Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400013 Tel.: +91 22 6666 3666 Fax : +91 22 6666 3777 E-mail: aegis@aegisindia.com Website: www.aegisindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") (including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or reenactment(s) thereof for the time being in force) and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meetings conducting postal ballot process through Remote e-voting vide applicable MCA Circulars and Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2"), the Company has sent the Postal Ballot Notice on Thursday, 16th May, 2024, through electronic mode only, to those shareholders whose names are recorded in the Register of Members and/or Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories (in demat mode) and Registrar & Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited (in physical mode) as on Friday, 10th May, 2024 ("Cut-Off Date") seeking approval of the shareholders of the Company by Postal Ballot through electronic Form for the appointment of Mr. Kanwaljit Singh Sudarshan Nagp (DIN:00012201), Non-Executive Non-Independent Director of the Company. Detailed explanatory statement setting out the material facts concerning this resolution and instructions for e-voting are part of the Notice.

The Notice is available on the website of the Company www.aegisindia.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com). Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the above-mentioned websites.

The Company engaged the services of the Link Intime India Private Limited ("LIIPL"), the Registrar & Transfer Agent ("RTA") to provide remote e-voting facility. Members may cast their votes during the period mentioned herein below: Commencement of e-voting: 09:00 a.m. (IST) on Friday, 17th May, 2024

: 05:00 p.m. (IST) on Saturday, 15th June, 2024 E-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by LIIPL upon expiry of the aforesaid period.

The shareholders whose names appear in the Register of Members and/or Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories (in demat form) and with RTA of the Company (in physical form) as on the cut-off date shall only be eligible for remote e-voting. The voting rights of the members shall be in proportion of the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person who becomes a member after the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

Manner of regi	stering/updating email address:
Dematerialised holding	Register/update the email address details in your demat account as pet the process advised by your depository Participant
Physical holding	Register/Update the KYC details along with email id in prescribed required documents viz; Form ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 pursuant to SEBI Master Circular dated 07-05-2024 with Company's RTA either by email with e-sign to kyc@linkintime.co.in from the registered email id with the subject line as "KYC Updation - (Name of Company: Aegis Logistics Limited) - Folio No.:" or by In Persor Verification (IPV) or by sending post to C-101, 247 Park, L BS Marg Vikhroli (West), Mumbai-400083. The formats for updation of KYC details and Nomination are available on RTA's website at https://www.linkintime.co.in'Resources'Downloads'KYC'Formats for KYC. The above referred KYC documents and SEBI Circular is also available on the Company's website at http://aegisindia.com/investor-

information/#investordownloads.

voting i.e. Saturday, 15th June, 2024. The results of e-voting will be declared within two working days from the conclusion of the e-voting and will be displayed on the Company's website www.aegisindia.com and the website of LIIPL at https://instavote.linkintime.co.in and the same shall be communicated to BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited, where the shares of the Company are listed. In case of any queries relating to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions

The resolution, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e-

('FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on Tel.: 022-49186175. For Aegis Logistics Limited

Place: Mumbai Monica Gandhi Date: May 16, 2024 **Company Secretary** 

# **SeQuent Scientific Limited**

Registered Office: 301, 3" Floor, 'Dosti Pinnacle', Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604, Maharashtra, India Tel. +91 22 41114777, Website: www.sequent.in, Email: investorrelations@sequent.in EXTRACT OF THE AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024						(₹ in Millions	
	Particulars	3 months ended 31-Mar-2024	Preceding 3 months ended 31-Dec-2023	Corresponding 3 months ended in previous period 31-Mar-2023	Current year ended 31-Mar-2024	Previous year ended 31-Mar-2023	
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	
Ī	Revenue from operations	3,611.97	3,293.59	3,666.68	13,697.31	14,209.09	
	Net profit for the period before tax and exceptional items	73.43	(12.69)	(272.06)	(372.55)	(728.65)	
	Net profit for the period before tax and after exceptional items	26.36	14.91	(888.02)	(546.46)	(1,376.58)	
	Net profit for the period after tax	12.74	106.76	(924.40)	(296.13)	(1,219.77)	
	Total comprehensive income / (expense), net of tax	(204.19)	154.91	(944.48)	(947.66)	(1,481.26)	
	Equity share capital	498.86	498.86	498.86	498.86	498.86	
	Other equity				6,066.74	6,488.92	
9	Earnings per equity share:(face value of ₹ 2 each)						
	Basic (in ₹)	(0.04)	0.33	(3.77)	(1.44)	(4.88)	
	Diluted (in ₹)	(0.04)	0.33	(3.77)	(1.44)	(4.88)	
	SUMMARIZED AUDITED STANDALONE FINANCI	AL RESULTS FOR TH	E QUARTER AN	ID YEAR ENDED	31 MARCH 202	4 (₹ in Millions	
		3 months ended	Preceding 3 months ended	Corresponding 3 months	Current year ended	Previous year	

Diluted (in ₹)	(0.04)	0.33	(3.77)	(1.44)	(4.88)
SUMMARIZED AUDITED STANDALONE FINANCIA	AL RESULTS FOR TH	IE QUARTER AN	ID YEAR ENDED	31 MARCH 202	4 (₹ in Millions
Particulars	3 months ended 31-Mar-2024	Preceding 3 months ended 31-Dec-2023	Corresponding 3 months ended in previous period 31-Mar-2023	Current year ended 31-Mar-2024	Previous year ended 31-Mar-2023
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Revenue from operations	367.71	422.05	465.95	1,685.18	2,226.85
Net profit for the period before tax and exceptional items	41.00	60.90	(12.30)	60.15	(97.46)
Net profit for the period before tax and after exceptional items	41.00	60.90	(12.30)	(2.39)	(97.46)
Net profit for the period after tax	37.63	45.80	(16.45)	6.22	(60.80)
Total comprehensive income / (expense), net of tax	37.58	45.83	(16.19)	6.54	(181.33)

 The above information has been extracted from the detailed financial results for the quarter and year ended 31 March 2024 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors and filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The full format of the financial results for the quarter and year ended 31 March 2024 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and Company's website (www.sequent.in).

For SeQuent Scientific Limited Rajaram Narayanan Managing Director & CEO INFIBEAM"

AVENUES

## INFIBEAM AVENUES LIMITED

[CIN: L64203GJ2010PLC061366]

Registered Office: 28th Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road 5C, Zone- 5, GIFT CITY, Gandhinagar-382355 Email: ir@ia.ooo, Tel: +91 79 6777 2204, Fax: +91 79 6777 2205, Website: www.ia.ooo

#### EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL **RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024**

(Rupees in million, except per share data and if otherwise stated)										
Particulars		Standalo	one		Consolidat	ated				
	Quarter ended on	Year ended on	Quarter ended on	Quarter ended on	Year ended on	Quarter ended on				
	31-03-2024	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2024	31-03-2023				
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)				
Total income	6,771.9	29,851.6	6,258.2	7,430.7	31,991.7	6,736.2				
Net Profit/(Loss) for the period/year before tax	557.2	1,990.2	501.6	620.9	2,075.7	514.2				
Net Profit/(Loss) for the period/year after tax of										
continuing operations	428.0	1,476.2	371.5	492.4	1,559.5	384.3				
Net Profit/(Loss) for the period/year after tax of				0						
discontinued operations	_		_	-	-					
Total Comprehensive Income for the period/year										
(comprising Profit/(Loss) for the period/year after										
tax and other comprehensive income after tax)	430.1	1,495.1	440.4	461.2	1,618.3	356.9				
Paid-up equity share capital										
(Face value of the share Re 1/- each)	2,782.0	2,782.0	2,677.8	2,782.0	2,782.0	2,677.8				
Reserves (excluding Revaluation Reserve as										
shown in the Balance Sheet of previous year)		29,547.7			31,791.9					
Earnings Per Share (Face value of Re. 1/- each)										
(not annualised)										
Basic:	0.16	0.54	0.14	0.18	0.57	0.14				
Diluted:	0.15	0.53	0.14	0.18	0.56	0.14				

- 1) The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of financial results are available on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company website at www.ia.ooo
- 2) The above financial results are reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 16, 2024.

For Infibeam Avenues Limited

Sd/-**Vishal Mehta** 

Chairman & Managing Director


Place: Gandhinagar

DIN: 02977405

**Date:** May 16, 2024

New Delhi

DIN: 03093563



20,58,07,586.97 76,55,34,235.56

(एस के सदाबर्तिया)

बीओआई नामिती

नाबार्ड नामिती

द्वारा निदेशक मंडल

(राकेश दुवे)

आरबीआई नामिती

ें हमने आर्चावर्त बैंक, लखनऊ के खाअयी वित्तीय विवर्शियों का अंकेक्षण किया है. जिसमें तुलनपत्र यथा स्थिति ३१ मार्च 2024, लाग-हानि खाता क्या नकदी प्रवाह विवर्शी यथा वित्तीय वर्ष की तमाप्ति की तिथि को एवं लेखा नीतियों का साराम एवं महत्वपूर्ण सुवनाएं सम्मित्तत हैं। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 50 शाखाओं और वैधानिक माया लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा रिक्षित 1062 शाखाओं की उस विनाक को समाप्त वर्ष की विवरणियों का समावेश हमारे द्वारा किया गया है। हमारे द्वारा अंकेक्षण की गई और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा अंकेक्षण की गई शाखाओं का वृन बैक द्वारा राष्ट्रीय कृषि और प्रामीण विकास बैक (नाबाई) द्वारा जारी दिशानिवैसों कुं अनुसार किया गया है। सुलन-पत्र, लाग-हानि खाते और नक्दी प्रवाह के विवरण में 250 सारपुओं के रिटर्न ४ जानिक हैं जिनका अंकेड्रीण नहीं किया नया है। इन अलेखानशिक्ष के अपूरार जाना नया है। कुला नय लाग कात अर तक्षेत्र (व्यादण ने 250 साव्यक्ष) के एटन में। शामिल हैं जिनका अंकेड्रीण नहीं किया नया है। इन अलेखानशिक्षत का अपूरार जाना 18,55 प्रतिकृत काज आय और 17.40 प्रतिकृत काज का शामिल हैं। इक्षर विचार में तथा हमारी जानकारी और इमें दिए गए सम्टोकरण के अनुसार अपरांत त्याक्षयों वित्तीय विकरणिया बैंकिंग विनियम, 1949 (अधिनियम) द्वारा दिए गए मानक के अनुसार आवश्यक जानकारी को सही और उचित रूप से दशीत हैं, ताथ ही वह भारत में प्रजित्त लेखांकन सिद्धातों के अनुरूप भी हैं तथा के मुलन-पन्न, जिसे अंकित दिप्पणियों के साथ पढ़ी जाए तो यह एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन-पन्न हैं जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं तथा इसे लेखित तरीके से तैयार किया गया है लाकि 31 मार्च, 2024 तक बैंक के मामूलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रविश्ति किया जा सके.

छ। लाभ- हानि खाता, जिसे अंकित टिप्पणियों के साथ पढ़ने पर लाभ का सड़ी सतुलन पता बलता है; और यू. नकदी प्रवाह विवरणी यथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, नकदी प्रवाह को सड़ी और उचित रूप में दर्शाती है।

हमरे हारा यह लेखा परीक्षण हस्टीटब्ट ऑफ जार्टर्ड अकाल्टेटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए ऑसिट के मानको (एस.ए.) के अनुसार किया गया है। इस साविधिक लेखा परीक्षण में ऑडिट के मानकों के अनुसार हमारी जिम्मेदारियों को इमारी रिफेर्ट 'साविधिक लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों' के मान में अगे वर्षित किया गया है। इम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आवार साईता के अनुरूप बैंक से स्वतंत्र हैं साथ ही अधिनियम के प्राथमों की अनुरूप हैं अनुरूप हैं और हमने आवार साईता के नैतिक गानकों और अन्य नैटिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। इम गानते हैं कि हमने जी ऑडिट साइय प्राप्त किए हैं, ये हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के

ध्यान देन था ये बात . क. अनुसूती 18 के नीट संख्या 25 में दिए गए विवरण के अनुसार, वर्ष के वीरान 114.28 करोड़ रुपये की ब्राज सहायता के वावे का हिसाब-किताब किया गया है. वैधानिक प्रमाणीकरण लंबित है। ख. 11 वो दिपसीय समझीता 05.11.2017 से 31.10.2022 तक और 12 वो दिपसीय समझीता 01.11.2022 से प्रमाणी है। 01.11.2022 से प्रमाणी होने वाला दिपसीय समझीता अतिम रूप विए जाने के लिए लंबित है। अनुसूती 18 के नीट संख्या 22 में दिए गए विवरण के अनुसार 11 वे दिपसीय समझीत का अनुसार वैका 11 वी अनुसूती के अनुसार वेतन और भत्ती पर व्यय का हिसाब रखना जारी रखा है। य. अनुसूती 18 के नीट संख्या 18 में दिए गए विवरण के अनुसार रोष्ट्रीय विकलाग कित एवं विकल समायो की लिए जांच के दायर में है। अनुसूती 18 के नीट संख्या 18 में दिए गए विवरण के अनुसार, इस तरह के मिलान / मज़री के लेबित होने के कारण खोतों पर परिणामी प्रमाय की माज निवारित नहीं की जा सकती है। ह जालूं विसें वर्ष के वीरान, बैंक ने एनपीए के लिए रखे गए अतिरिक्त आवधान में से 186,02 करोड़ रुपए निकाल और तपयोग किए, जैसा कि अनुसूची 18 के नीट संख्या 23 में विवरण दिया गया है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलावु नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधतंत्र का उत्तरदायिता : वित्तीय विवर्णण्या के लिए प्रवधान को उत्तरकायित :
बैंक का निवेशक महल इन वितीय विवरण के तैयार करने के लिए उत्तरवाया है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लखाकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वितीय प्रवर्णन और नकदी
प्रवाह का सही और निव्धन दश्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखाकन मानक, बैंकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ के प्रवधान, भारतीय रिखन बैंक (आरबीआई) और नाबाई
द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिया हो। यह उत्तरवाधित इस अधिनियम के प्रायमां के अनुसार उपयुक्त लेखा अभिलखों के रख-रखाय, बैंक की आसित्रयों को सुरक्षित इस अधिनियम के प्रायमां के ज्ञान कथा जिसकों के रख-रखाय, बैंक की आसित्रयों को सुरक्षित रखने
तथा उन्हें वितीय बोंबा—घडीं एवं अन्य अनियमित्रताओं से बचाने तथा उनकी पहचान के लिए उपयुक्त लेखा नीतियों के चयन तथा तनके प्रयोग निर्णय लेना एवं यह आंकलन करना कि वै तार्विक एवं
विवेकपूर्ण है, कारगर वितीय मियाज्ञ प्रणाली का निर्माण, उसे लागू करान तथा उसकी देख-माल करना जिससे सुनिश्चित हो सके कि वितीय अभिलेख पूर्ण एवं सही है तथा वितीय अभिलेखों का
प्रस्तुतिवरण सही एवं वास्त्रविक रियति प्रवर्शित करता है। यह किसी प्रकार का वस्ताविकों कुमब्दन धांखा—धेंकी वा गलती के कारण नहीं है। वितीय कर्क्यों की तथारी में, बैंक प्रवर्शन के की
कारिय किसरीय के सम्बंधित लेखा को खाने के लिए और सम्बंधित मामली का खुलासा करने और कार्यरत रखने या परिवालन बंद करने से सम्बंधित लेखा को
बताने या कोई अन्य विकास करने वा व्यवस्था को उत्तरवारिक

वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण में लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व:

हमारा उद्देश्व इस बार में उधित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्यां सपूर्ण वित्तीय विवरणिया ताकिक मिध्या वर्णनों से मृता है बाहे वह धोखा-चुडी के कारण हो या चूटि के कारण हो और एक ऑडिटर की रिपोर्ट, जिसमें हमारी राय भी शामिल है, को जारी करना है। उधित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, तीकेन यह गारटी नहीं है कि एस ए. के अनुरूप किया गया ऑडिट हमेशा ही किसी तार्किक मिध्या वर्णन का पता लगा ही लगा। धोखाबड़ी या चूटि से गलत विवरणी बन सकती है और इसे तार्किक रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि एकल रूप से या समेकित रूप से यह वितीय

विषय अपवागकताओं के द्वारा लिए पर आधक निर्णय के प्रभावत करते हैं। एस ए. के अनुसार ऑडिट करते समय, इम व्यावसायिक निर्णय केते हैं और पूरे ऑडिट में व्यावसायिक संशयवाय को बनाए रखते हैं। इम - वितीय विवेरणों में चलत विवरण के व्योविम की पहुन्छक करते हैं, बाड़े वह धोत्काकड़ी या जुटि के कारण हो। चन जोविमों के प्रति चत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को ढिजाइन और ऑडिट करना और ऑडिट सहयों को भी प्राप्त करना है जो हमारे विवारों को अकार प्राप्त करने हेंतु पर्योदा एवं उवित हैं। धोव्कावड़ी के परिणानस्तकप गलत विवरण का पता नहीं लगने का जीविम, जुटि के परिणानस्तकप गलत विवरण से कहीं अधिक हैं, क्योंकि धोव्यावड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबुझकर चुक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है। — उक्त परिस्थितियों में लेखापरीक्षा के लिए प्रास्थिक ओलरिक नियंत्रण की समझते हैं लाकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की सरचना हो सुके।

— प्रवार निर्माण के तथे तथा के लिए प्राचारक जातरक विश्वन के समझ्या है तकक कि स्वार्थक को संस्थान के सरकत है। — प्रवार होरा लेखांक ने तो तथा लेखांक ने निर्माण अपनान की जम्मकत और प्राच लेखा परीक्षा सोहय के अधार पर यह निष्कर्ण निकालते हैं कि ज्या घटनाओं या शर्ती से संबंधित कोई नाकिक अनिश्वितता मौजूद है जो बैंक द्वारा लेखांकन की कारोबार वाले संस्थान की अवधारण को जारी रखने की हमता पर संदेह ढाल सकती हो। यदि हम यह निष्कर्ण निकालते हैं कि एक ताकिक अनिश्वितता मौजूद है तो हमें अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वितीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है था. यदि ऐसे प्रकटीकरण अपयोग्त है तो हम हमारी राय को संशोधित करते हैं। हमारे निष्कृष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त औदिट साक्ष्यों पर अधारित है। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शती के फलस्वरूप बैंक एक कारोबारी विसीय विकरणियों की समग्र प्रस्तुति, सरबना और सामग्री का मूल्यांकन भी यह सुनिरियत करने के लिए करते हैं, कि विसीय विवरणी अंतर्निहेंत लेन-वेन और घटनाओं को उधित रूप से प्रवर्शित म्प ऑडिट की बोजन, दावरा, समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के विषय में प्रबंधन से बच्ची करते हैं. जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है तथा जिसे हमने आपने ऑडिट के इस प्रवंधन के लोगों को अपनी अच्छा उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्र, प्रासंगिक, नैतिक मूल्यों का लेखा परीक्षण करते समय पालन किया है तथा आयश्यकता अनुसार इस सर्वव में हमने उचित रूप हुन अपना के लाग का आजा अपना के किया है। कि हमा सावज आता की लाजा मरावज करता समय पालन करता आपरावजना अपना के सावज से तथा सुरक्षित रूप में प्रकंत को सुवित भी कर दिया है। हम उन मामलों का नर्थन करते हैं जो वर्तमान अवधि के विसीध विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले माने जाते हैं। हम अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को दुमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जानी वाहिए जिसके संवार करने से सार्वजनिक हित लाभी पर प्रतिमृत्य परिणारी के होने की जन्मीद की जा रही हो।

अन्य नामल. इसने बैंक के स्टैडअलोन विशोध विवरणों में शामिल 250 माध्याओं के वितीय विवरणों / सूचनाओं का अकेंक्षण नहीं किया. जिनके वितीय विवरण / वितीय जानकारी 31 मार्च 2024 तक 7508.39 करोड़ इपये की कुल आस्तियां और उस तिथि को गल वितीय वर्ष के लिए 742.02 करोड़ रुपये की कुल आग्र दर्शाली है. जो कि वितीय विवरणों में सम्मिलत है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं के वितीय विवरण / सुवना संबंधित शाखा प्रकारते द्वारा प्रदान की गई है और जहां तक इन शाखाओं के सबसे में सम्मिलत गणि और प्रकटीकरण से संबंधित है, इमारे विवार पूरी तरह से ऐसे शाखा प्रकारते द्वारा प्रस्तुत वितरिय विवरणों पर अधारित है। इस मामले के संबंध में इमारी राय में कोई बदलाव नहीं है।

भूत विकास है। तियान पर आध्या तिनपत्र और लाभ-द्वानि खाते की प्रारूप 'ए' और यी' के रूप में शामिल करने के लिए आवश्यक आंकड़े हैं, जो कि वैकिय विनियमन अधिनियम 1949 के अनुतार है एय उदिल्खित ऑडिट की सीमाओं है अधीन और बैकिय क्पूनी (उपक्रमों का अधिव्रदण और इस्तातरण) अधिनियम, 1970 / 1980 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रकटीकरण की सीमाओं के लिए आवश्यक है तथा हम अपनी आख्या ह हमेंने उन सैंमी जानकारी और स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त किया, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारे अंकेक्षण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पामा है। या. बैंक के लेन-देन, जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं, और

ा, बैंक के कार्योलयों और शाखाओं से प्रापा विवर्तणिया हमारे अवेक्षण के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाए गए हैं 1 । इस आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

। हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जाप से पता चलता है, केंक द्वारा कानून द्वारा अपेकित उपित बहीखाते का रिकॉर्ड रखा गया है. Ⅱ इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, लाग- हाने और नकरी प्रवाह का विवरण वहीं खीते की कितायों के अनुरूप है. Ⅲ कैंक के शाखा लेखा परिक्रको द्वारा लेखापरीक्षित शुख्या, कार्यालयों के खाता पर ट्रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा जुकित तरीके से निपटा गया है, और

(लपमा सक्सेना) lv हुमारी राय में, तुलन-पत्र और लाम- हानि का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखाकन मानकों का अनुपालन करते हैं। उक्त सभी आरबीआई और नाबाई द्वारा निवोस्ति लेखांकन नीतियों के साथ असमत नहीं हैं।

विनय कुमार एंड कंपनी के लिए, निधिल सिघल स्थानः लखनव ਕਟੋੜੀ ਅਜ਼ਾਰਟੋਟ दिनांकः 06.05.2024 निदेशक मंडल (फर्म पंजीकरण संख्या: 000719C) UDIN : 240795578KCXXF1990



(संतोष एस)

38778

(अमरेंद्र कुमार)

बीओआई नामिती

W- मानव संसाधन विकास निधि

वेशेष आरक्षित निधि हेत

चारेडे एकाउंटेंट

नेवेश आरक्षित निधि (आईआरएफ) हेत्

विनय कुमार एंड कंपनी के लिए

दिनांकः 06.05.2024, स्थानः लखनऊ

ऍफ.आर.एन.— 000719C

साझेदार, एम.न.— ०७१५५७

(सी.ए. निखिल सिंघल)

# SIGNATUREGLOBAL (INDIA) LIMITED

CIN: L70100DL2000PLC104787

#### EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024

(Rs. in million unless otherwise stated)

		Quarter ended			Year ended		
S. No.	Particulars	31 March 2024 [Unaudited] [Refer note 4]	2023	31 March 2023 [Unaudited] [Refer note 5]	31 March 2024 (Audited)	31 March 2023 (Audited)	
1	Total income from operations	7,227.38	3,017.50	7,098.69	13,245.55	15,858.77	
2	Net Profit / (Loss) for the period/ year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	345.84	20.49	219.23	44.69	(567.51)	
3	Net Profit / (Loss) for the period/ year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	345.84	20.49	219.23	44.69	(567.51)	
4	Net Profit / (Loss) for the period/ year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	412.54	21.79	76.47	163.24	(637.15)	
5	Total Comprehensive Income for the period/ year [Comprising Profit / (Loss) for the period/year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	411.52	21.85	77.82	161.56	(631.45)	
6	Equity share capital (face value of Re. 1 each)	140.51	140.51	124.85	140.51	124.85	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				6,126.03	350.54	
	Earnings/(loss) per equity share (face value of Re. 1 each per share) (quarterly figures are not annualised)						
8	Basic (Rs. per share)	2.93	0.15	0.61	1.22	(5.44)	
	Diluted (Rs. per share)	2.93	0.15	0.61	1.22	(5.44)	

- 1 In terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), this Statement of Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024 ("Consolidated Financial Results") of Signatureglobal (India) Limited [Formerly known as Signatureglobal (India) Private Limited] (the "Holding Company" or the "Company") and its subsidiaries (the Company along with subsidiaries together referred to as "the Group") has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 15 May 2024 and have been audited by the statutory auditors of the Company.
- 2 The Consolidated Financial Results, for the guarter and year ended 31 March 2024 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards, prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- During the year ended 31 March 2024, the Company has completed its Initial Public Offer ('IPO') of 18,961,038 Equity shares having face value of Rs. 1 each, at an issue price of Rs. 385 per equity share (including share premium of Rs. 384 per share), comprising offer for sale of 3,298,701 shares by selling shareholder aggregating to Rs. 1,270.00 million and a fresh issue of 15,662,337 shares aggregating to Rs. 6,030.00 million. The equity shares of the Company were listed on BSE Limited ('BSE') and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') on 27 September 2023.
- 4 The figures for the quarter ended 31 March 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended 31 March 2024 and the figures for the nine months period ended 31 December 2023, which were subjected to limited review by the statutory auditors.
- 5 The figures for the quarter ended 31 March 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended 31 March 2023 and the unaudited year to date figures upto the period ended 31 December 2022, which were neither subjected to review nor audit. However, the management has exercised necessary care and diligence to ensure that the consolidated financial results for such period are fairly stated.
- 6 During the current year, the Group has executed a Share Purchase Agreement with the existing shareholders of Gurugram Commercity Private Limited ('GCPL'), the entity that owns land parcel admeasuring 25.14 acres, situated at Village Fazilpur Jharsa, Sector 71, Gurugram, Haryana. During the quarter ended 31 December 2023, the Group had acquired a 19% stake and further, had advanced an interest bearing short- term loan to GCPL. During the current quarter, the Group has completed the acquisition and consequently, as at 31 March 2024, GCPL has become a 100% subsidiary company, for consideration of Rs 846.72 million while interest bearing short- term loan to GCPL amounts to Rs. 2,657.55 million. The said acquisition meets the criterion of asset acquisition in accordance with Ind AS 103- 'Business Combinations'.

## Key Standalone financial information is given below:

**Place:** Gurugram **Date:** 15 May 2024 (Rs. in million unless otherwise stated)

•		Quarter ended			Year ended		
S. No.	Particulars		31 December 2023 (Unaudited)	31 March 2023 [Unaudited]	31 March 2024 (Audited)	31 March 2023 (Audited)	
1	Total income from operations	2,942.06	2,523.42	4,962.21	9,614.07	9,300.96	
2	Net Profit / (Loss) for the period/ year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(16.46)	215.08	191.59	117.62	(1,017.63)	
3	Net Profit / (Loss) for the period/ year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(16.46)	215.08	191.59	117.62	(1,017.63)	
4	Net Profit / (Loss) for the period/ year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	88.14	214.90	2.71	221.58	(1,125.25)	
5	Total Comprehensive Income for the period/ year [Comprising Profit / (Loss) for the period/ year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	87.49	214.46	3.06	219.38	(1,121.05)	
6	Equity share capital (face value of Re. 1 each)	140.51	140.51	124.85	140.51	124.85	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				8,532.18	2,697.50	
	Earnings/(loss) per equity share (face value of Re. 1 each per share) (quarterly figures are not annualised)						
8	Basic (Rs. per share)	0.63	1.53	0.02	1.67	(9.58)	
	Diluted (Rs. per share)	0.63	1.53	0.02	1.67	(9.58)	

The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarter and year ended Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com/ www.nseindia.com and Company's website at www.signatureglobal.in.

> On behalf of the Board of Directors For Signatureglobal (India) Limited

> > Ravi Aggarwal Managing Director

Registered office: 13th Floor, Dr. Gopal das Bhawan, 28, Barahkhamba Road, New Delhi-110001, Website: www.signatureglobal.in, Tel: 011 49281700, Email: cs@signatureglobal.in

www.readwhere.com

अरावली सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड सीआईएनः L67120HR1980PLC039125

कार्यालयः प्लॉट नंबर 136, भूतल, राइंडर हाउस, सेक्टर-44, गुड़गांव, हरियाणा-122003 फोन 0124-4284578, ई—मेल: info@aravalisecurities.com,

वेबसाइटः www.aravalisecurities.com

तदद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति औ विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकर आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ के विनियमन २९, ३३, ४७ औ किसी भी अन्य विनियमन, यदि लागू हो, के अनुसा अरावली सिक्योरिटीज और फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक, गुरुवार, 23 मई, 2024 को अपराह 3:00 बजे ,प्लॉट नंबर —136,भूतल, राइंडर हाउस सेक्टर–44, गुड़गांव–122003 स्थित अपने पंजीकृत कार्यालय में अन्य बातों के साथ—साथ, 31 मार्च, 2024 क समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेख परीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और अनुमोद करने के लिए आयोजित किया जाएगा।

स्थान : गुड़गाव दिनांक : 16.05.202**4** 

कृते अरावली सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेर रुचि श्रीवास्तव, कंपनी सचिव

**PUBLIC NOTICE** Notice is hereby given that 96 shares of Ultratech Cement Ltd under Folio number 70063298

bearing certificate number 106489 (43 shares) with distinct numbers 34142219 to 34142261 and certificate number 149136 (53 shares) with distinct numbers 36963723 to 36963775 standing in the name of B Radhika Kamath, have been lost and the advertiser has applied to the company for issue of duplicate share certificates in lieu thereof. Any persons who have claims on the said shares should lodge such claims with the Company at its Registered Office within 15 days from the date of this notice, failing which the company will proceed to issue duplicate share certificate in respect of the said shares. Dated: 16.05.24

7= उत्तर रेलवे निविदा सूचना सं. 14/2024-2025 दिनांक: 15.05.2024

इच्छ्क फर्मो से निम्नलिखित मदों के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

इलेक्ट्रॉनिक निविदा ई प्रणाली के अंतर्गत मदों की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण भारत के राष्ट्रपति की और से मुख्य सामग्री प्रबंधक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली–110001 द्वारा

क्र.सं.	निविदा सं.	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	अंतिम तिथि
01	18241059	प्री-प्रिंटिङ कंप्यूटर टिकट्स	164430 रोल्स	10.06.2024
02	09243006A	सिथेटिक इनेमल, इंटीरियर, अंडरकोटिंग, वाइट	60646 लीटर	10.06.2024
03	09243041	इनेमल सिंथेटिक, एक्सटेरियर, फिनिशिंग ब्लैक	104174 ਲੀਟਵ	10.06.2024
04	09243025	इनेमल सिंथेटिक, एक्सटेरियर, फिनिशिंग सिग्नल रेड	66965 लीटर	17.06.2024
05	09243014	इनेमल सिंथेटिक, एक्सटेरियर, फिनिशिंग पले क्रीम	20954 ਕੀਟर	25.06.2024
06	11231076	स्टेनलेस स्टील स्ट्रैंट एयर ब्रेक पाइप	7429 ਸੀਟਵ	01.07.2024
07	19241819	शंदिंग कंटक्टर असेंबली	263 नग	19.08.2024

निविदा शर्तै:- 1, विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट यानि

www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। 2. मैनुअल निविदा स्वीकृत

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ फॉर्म ए

सार्वजनिक उद्घोषणा (भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 6 के अंतर्गत) (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

	मेसर्स आव	र्ज फार्मालैब्स लिमिटेड								
	के लेन	दारों के ध्यानार्थ								
	प्रासंगिक विवरण 1. कॉर्पोरेट देनदार का नाम मेसर्स आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड									
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	मेसर्स आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड								
2.	कॉर्पोरेट के निगमन की तिथि	02 अप्रैल, 1993								
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/ पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, मुंबई								
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट देनदार की सीमित देयता पहचान संख्या	U24231MH1993PLC150891								
5.	कॉर्पोरेट देनदारों के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 101/104, हाइड पार्क, साकी विहार रोड, सामने अंसा इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंधेरी (ई), मुंबई महाराष्ट्र—400072, भारत								
6.	कॉरपोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	15 मई, 2024								
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के बंद होने की अनुमानित तिथि	11 नवंबर, 2024								
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री संजय गर्ग आईबीबीआई रजि. नं: IBBI/IPA001/IP-P-01865/2019-2020/12919								
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ई—मेल	आईआरपी का पताः 193, अग्रोहा कुंज सेक्टर—13, रोहिणी, नई दिल्ली—110085 ईमेलः rp.sanjaygarg@gmail.com								
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	पत्राचार पता: 109, पहली मंजिल, सूर्य किरण बिलिंडग, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली—110001 पत्राचार ईमेल: cirp.archpharamalabs@gmail.com								
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	29 मई, 2024								
12.	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा सुनिश्चित धारा 21 की उप—धारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हो,	लागू नहीं								
13.	ऋणशोधन अक्षमता पेशेवरों के नाम जिन्हें एक वर्ग में ऋणदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चिद्वित किया गया है।(प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	लागू नहीं								
14.	(क) प्रासंगिक प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां	(क) प्रासंगिक प्रपत्रः https://ibbi.gov.in/downloadform.html								

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल ने 15 मई, 2024 को मेसर्स आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड मेसर्स आर्क फार्मालेब्स लिमिटेड के लेनदारों को सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए 29 मई, 2024 को या उससे पहले प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रविष्टि संख्या 12 के सामने सूचीबद्ध अनुसार एक वर्ग से संबंधित एक वित्तीय लेनदार, फॉर्म सीए में (वर्ग निर्दिष्ट करें) में वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के सापेक्ष सूचीबद्ध तीन दिवाला पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद का संकेत देगा। लागू नहीं श्री संजय गर्ग दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा। अंतरिम समाधान पेशेवर

आईबीबीआई रजि. नं: IBBI/IPA001/IP-P-01865/2019-2020/12919

असाइनमेंट के लिए प्राधिकृति 24 जनवरी, 2025 तक वैध

स्थान : नई दिल्ली

टाटा कैपिटल लिभिटेड

CIN: U65990MH1991PLC060670 📆 रिज. कार्यालयः ११वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई ४०००१३ शाखा का पताः ७वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ७ई,

झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 परिशिष्ट IV कब्जा सचना

हम, टाटा कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कडर्न मार्ग, लोअर परेल मुंबई 400013 और एक शाखा कार्यालय, 7वीं मंजिल, वीडियोंकॉन टावर, ब्लॉक ७ ई. डांडेवालान एक्सटेंशन, करोल बाग, नई दिल्ली-110055 है।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यनल (एनसीएलटी) के 24 नवंबर, 2023 के आदेश के अनुसार, मुंबई पीठ ने कंपनी अधिनियम, 2013 ("उक्त योजना") की घारा 230 से 232 आर / डब्ल्यू धारा 66 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के तहत हस्तांतरणकर्ता और टाटा कॅपिटल लिमिटेड (--टीसीएल') को अंतरिती के रूप में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (--टीसीएफएसएल') और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ("टीसीसीएल") के बीच व्यवस्था की योजना को विधिवत मंजरी दे दी है। इसके संदर्भ में, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (ट्रांसफरर कंपनिया) अपने उपक्रम के साथ प्रभावी तिथि यानी 1 जनवरी, 2024 से उक्त योजना में अधिक विशेष रूप से वर्णित अनुबंध, समझौते, प्रतिभृतियां आदि के साथ - सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभ, ब्याज, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों के साथ एक चालू विषय के रूप में टीसीएल (ट्रांसफरी कंपनी) के साथ विलय कर चुकी हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में टीसीएफएसएल (अब टीसीएल में समामेलित) द्वारा निष्पादित सभी सविधा दस्तावेज और

उनके संबंध में सभी बकाया टीसीएल को हस्तांतरित कर दिए गए। चुंकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002(इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा जाएगा) के अंतर्गत टाटा कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") के प्राधिकृत अधिकारी होंने के नाते तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 04 मार्च,2024 को एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता (1) श्रीमती सरोज सिंघल (गीतम एंड कंपनी के मालिक) (उधारकर्ता / बंधकदाता), (2) श्री नरेंद्र सिंधल (गारंटर), और (3) श्री गौतम सिंघल (गारंटर), को नोटिस में उल्लिखित राशि 21 फरवरी, 2024 तक रु.1,27,38,636.10 / – (एक करोड़ सत्ताईस लाख अड़तीस हजार छह सी छत्तीस रुपये एवं दस पैसे मात्र)को उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर भगतान

करने के लिए कहा गया था। उघारकर्ता / बंधकदाता / गारंटरों द्वारा उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, तो ऋणकर्ता / बंधकदाता / गारंटर और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदान की गईं शक्तियों के तहत नीचे वर्णित टीसीएल को गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति/मशीनरी पर

13 मई, 2024 को कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता / बंधकदाता / गारंटरों और आम तौर पर जनता का एतदद्वारा, संपत्ति के साथ सौदा न करने के लिए चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेनदेन करने पर 21 फरवरी, 2024 तक

रु. 1,27,38,636,10 / – (एक करोड़ सताईस लाख अड़तीस हजार छह सौ छत्तीस रुपये एवं दस पैसे मात्र)के साथ भुगतान की तारीख तक संविदात्मक ब्याज दर पर अतिरिक्त ब्याज और उस पर होने वाला खर्च आदि टाटा कैपिटल लिमिटेड("टीसीएल") के प्रभार के अधीन होगा। सुरक्षित संपत्ति / बंधकीय मशीनरी को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में,

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

बंधक मशीनरी / सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण नीचे उल्लिखित हाइपोथिकेशन के माध्यम से पहला और विशेष शल्क

मशीनरी		आपूर्तिकर्ता का नाम	श्रेणी	मात्रा
सहायक उपकरणों के आरआईबीएएल ब्रांड, चीन ! फाइबर लेजर मुशीन	त्ताथ निर्मित	रिवल मेटफेंब इंडिया प्रा. लिमिटेड	STD	3
सहायक उपकरणों के आरआईबीएएल ब्रांड, चीन ! फाइबर लेजर मशीन	साध निर्मित	LY SECTION	STD	1

दिनांकः 17/05/2024 स्थानः फ्रीदाबाद

टाटा कैपिटल लिमिटेड

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,